1	Unit of energy is:	ऊर्जा की इकाई है :		
	A)Kg/N-m $B)Kg-m/s$	A) किलो ग्राम /न्यूटन-मी° B) किलो ग्राम -मी° /से°		
	C)N-m D)None of the above	C) न्यूटन-मी° D) उपरोक्त मे से कोई नहीं		
2	The angle which is less than 90 degree is called	कोण जो ९ ० डिग्री से कम है कहा जाता है:		
	A) Right angle B) Obtuse angle	A) राइट एंगल B) ऑब्सट्यूज एंगल		
	C) Acute angle D) All of the above	C) तीव्र कोण D) उपरोक्त सभी		
3	Chromium is added to improve which property of	स्टील के किस गुणधर्म में सुधार करने के लिए क्रोमियम		
	steel?	को जोड़ा जाता हैं?		
	A)Toughness B)Hardness	A) कठिनता B) कठोरता		
	C)Strength D)Corrosion resistance	C) शक्ति D) संक्षारण प्रतिरोध		
4	The quality control allows at the most 0.4%	गुणवत्ता नियंत्रण यदि अधिकतम 0.4% दोषपूर्ण हिस्सो		
	defective parts, How many defective parts can be	की अनुमति देता है,तो 500 नग के उत्पादन में कितने		
	allowed in a production of 500 parts	दोषपूर्णे नगों की अनुमति दी जा सकती है?		
	A) 02 B) 01	A) 02 B) 01		
	C) 20 D) 10	C) 20 D) 10		
5	Counter boring is done for?	काउंटर बोरिंग उपयोगी है :		
	A) Deburring hole ends	A) छिद्र शिरों से अपशिष्ट हटाने मे		
	B) Enlarging holes to accurate size	B) छिद्र को सटीक आकार तक बढ़ाने मे		
	C) Finishing cored holes	C) कोर्ड छिद्रों को तैयार करने मे		
	D) Accommodating socket head screws	D) गर्तिका सिर शिकंजा का समायोजन		
6	Reason for high lubricating oil consumption in engine	इंजन में स्नेहक की उच्च खपत का कारण है:		
	A) Battery is weak	A) बैटरी कमजोर है		
	B) Defective air cleaner	B) दोषपूर्ण हवा क्लीनर		
	C) Worn out piston rings	<ul><li>C) पिस्टन के छल्ले पहने</li></ul>		
	D) None of the above	D) उपरोक्त में से कोई नहीं		
7	A gear wheel has 24 teeth and 3 mm module What	एक गियर व्हील में 24 दांत और 3 मिमी मॉड्यूल हैं, तो		
	is its pitch diameter?	इसका पिच व्यास कितना है?		
	A) 8 mm B) 72 cm	A) 8 मिलीमीटर B) 72 सेंटीमेटर		
	C) 0.8 mm D) 72 mm	c) 0.8 मिलीमीटर D) 72 मिलीमीटर		
8	What is the minimum flash point of diesel	डीजल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या है		
	A) $50^{0}$ F B) $90^{0}$ F	A) 50° F B) 90° F		
	$C)70^{0} F$ $D)100^{0} F$	C) 70° F D) 100° F		
9	The grain size of a grinding wheel is indicated by	एक ग्राइंड व्हील के ग्रैन साइज़ को एक संख्या द्वारा		
	numbers, which range of grain size referred to as	दर्शाया जाता है , किस ग्रैन साइज़ के अंतराल को 'वेरी		
	'Very Fine	फाइन' कहा जाता है:		
	A)30-40 B)70-80	A)30-40 B)70-80		
	C)250-600 D)100-150	C)250-600 D)100-150		
10	What is the bore size in bearing no: 9112?	बीयरिंग संख्या: 9112 के बोर का आकार कितना है?		
	A) 34 mm B) 48 mm	A) 34 <b>मि</b> मी B) 48 <b>मि</b> मी		
	C) 80 mm D) 60 mm	C) 80		
11	Main purpose of using worm and worm wheel drives	मशीनों और उनके अवयव में वोर्म और वोर्म व्हील		
	in machines and their accessories is to?	ड्राइव का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है:		
	A)Transmit large torque	A) अधिक टोर्क के संचरण		
	B)Provide large speed reduction from worm shaft to	B) वोर्म शाफ्ट से वोर्म पहिया तक गति में बड़ी कमी		
	worm wheel	प्रदान करना		
	C)Transmit higher speeds	C) उच्च गति संचरण		
	D)Provide large speed reduction from worm wheel	D) वर्म व्हील से वर्म शाफ्ट तक गति में उच्च कमी प्रदान		
	to worm shaft	करना		
L		E V II		

12	T 111 0.1			
	In which of the gear train first and last gears are co-axial?	पहले और अंतिम गियर किस गीयर ट्रेन में सहअक्षीय - हैं?		
	A)Single gear train B)Inverted gear train	Δ) सिंगल गीयर टेन B) इंतेर्टेंड गियर टेन		
	C)Compound gear train D)All of the above	C) कंपाउंड गीयर ट्रेन D) उपरोक्त सभी जब चलती गाड़ी पर ब्रेक लगाए जाते हैं; गतिज ऊर्जा		
13	When brakes are applied on a moving vehicle; the	जब चलती गाडी पर ब्रेक लगाए जाते हैं: गतिज ऊर्जा		
	kinetic energy is converted to	को में परिवर्तित किया जाता है।		
	A) Mechanical Energy B) Potential energy	A) यन्त्रकीय ऊर्जा B) स्थितिज ऊर्जा		
	C) Electrical energy D) Heat energy	C) विद्युत ऊर्जा D) ऊष्मा ऊर्जा		
14	Hydraulic brakes function on the principle of	हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं?		
	A)Law of conservation of momentum	A) संवेग सरक्षण का नीयम		
	B)Law of conservation of energy	B) ऊर्जा संरक्षण का नीयम		
	C)Pascal's law	C) पास्कल का नियम		
	D)None of the above	D) उपरोक्त में से कोई नहीं		
15	Hand brake is applicable to which wheels of vehicle?	हैंड ब्रेक वाहन के किन पहियों पर लागू होता है?		
	A)only front wheels	A) केवल सामने के पहियो पर		
	B)only rear wheels	B) केवल पीछे के पहियों पर		
	C)both front and rear wheels	c) आगे और पीछे दोनों पहिओ पर		
	D)all of the above are true	D) उपरोक्त सभी सही है ।		
16	Which factor(s) contribute to the effectiveness of	कौन से कारक ब्रेक की प्रभावशीलता में योगदान देते है ?		
	the brakes?	A) ब्रेक लाइनिंग का क्षेत्र		
	A)Area of brake linings	B) कार के पहिए का त्रिज्या		
	B)Radius of car wheel	C) शू ब्रेक पर लागू दबाव की मात्रा		
	C)Amount of pressure applied to shoe brakes	D)उपरोक्त सभी		
	D)All of the above			
17	Name the device used for cooling the circulating	इंजन में परिसंचारी पानी को ठंडा करने के लिए उपयोग		
17	Name the device used for cooling the circulating water in the engine, known as	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:		
17		किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं: A) वॉटर पंप B) रेडिएटर		
17	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं: A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मीस्टेट		
17	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं: A) वॉटर पंप B) रेडिएटर		
	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं: A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मीस्टेट		
18	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मीस्टेट किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1		
	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1 Which of these is heaviest material among these four?	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मोस्टेट किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1 इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है?		
18	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1 Which of these is heaviest material among these four? A)Aluminium B)Lead	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मीस्टेट किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1 इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है? A) एल्यूमीनियम B) लीड		
18	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat  Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1  Which of these is heaviest material among these four? A)Aluminium B)Lead C)Copper D)Gold	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मीस्टेट किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1 इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है? A) एल्यूमीनियम B) लीड C) कॉपर D) गोल्ड		
18	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1 Which of these is heaviest material among these four? A)Aluminium B)Lead C)Copper D)Gold Major advantage of using V belt drive	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) धर्मोस्टेट  किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1 इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है? A) एल्यूमीनियम B) लीड C) कॉपर D) गोल्ड वी बेल्ट ड्राइव का उपयोग करने का प्रमुख लाभ:		
18	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1 Which of these is heaviest material among these four? A)Aluminium B)Lead C)Copper D)Gold Major advantage of using V belt drive A)Crippling B)Avoid slippage	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मोस्टेट  किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1 इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है? A) एल्यूमीनियम B) लीड C) कॉपर D) गोल्ड वी बेल्ट ड्राइव का उपयोग करने का प्रमुख लाभ: A) क्रिपलिंग B) फिसलन से बचाव		
19 20	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1 Which of these is heaviest material among these four? A)Aluminium B)Lead C)Copper D)Gold Major advantage of using V belt drive A)Crippling B)Avoid slippage C)Avoid cutting D)None of these	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मीस्टेट  किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1 इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है? A) एल्यूमीनियम B) लीड C) कॉपर D) गोल्ड वी बेल्ट ड्राइव का उपयोग करने का प्रमुख लाभ: A) क्रिपलिंग B) फिसलन से बचाव C) कटान से बचाव D) इनमे से कोई नहीं		
18	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1 Which of these is heaviest material among these four? A)Aluminium B)Lead C)Copper D)Gold Major advantage of using V belt drive A)Crippling B)Avoid slippage C)Avoid cutting D)None of these Example of semi liquid lubricant is	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मोस्टेट  किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1 इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है? A) एल्यूमीनियम B) लीड C) कॉपर D) गोल्ड वी बेल्ट ड्राइव का उपयोग करने का प्रमुख लाभ: A) क्रिपलिंग B) फिसलन से बचाव C) कटान से बचाव D) इनमे से कोई नहीं सेमी तरल स्नेहक का उदाहरण है:		
19 20	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1 Which of these is heaviest material among these four? A)Aluminium B)Lead C)Copper D)Gold Major advantage of using V belt drive A)Crippling B)Avoid slippage C)Avoid cutting D)None of these Example of semi liquid lubricant is A)Grease B)Lord oil	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मीस्टेट  किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1 इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है? A) एल्यूमीनियम B) लीड C) कॉपर D) गोल्ड वी बेल्ट ड्राइव का उपयोग करने का प्रमुख लाभ: A) क्रिपलिंग B) फिसलन से बचाव C) कटान से बचाव D) इनमे से कोई नहीं सेमी तरल स्नेहक का उदाहरण है: A) ग्रीस B) लॉर्ड ऑइल		
18 19 20 21	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1 Which of these is heaviest material among these four? A)Aluminium B)Lead C)Copper D)Gold Major advantage of using V belt drive A)Crippling B)Avoid slippage C)Avoid cutting D)None of these Example of semi liquid lubricant is A)Grease B)Lord oil C)Vegetable oil D)None of the above	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मीस्टेट  किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1 इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है? A) एल्यूमीनियम B) लीड C) कॉपर D) गोल्ड वी बेल्ट ड्राइव का उपयोग करने का प्रमुख लाभ: A) क्रिपलिंग B) फिसलन से बचाव C) कटान से बचाव D) इनमे से कोई नहीं सेमी तरल स्नेहक का उदाहरण है: A) ग्रीस B) लॉर्ड ऑइल C) वनस्पति तेल D) उपरोक्त में से कोई नहीं		
19 20	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1 Which of these is heaviest material among these four? A)Aluminium B)Lead C)Copper D)Gold Major advantage of using V belt drive A)Crippling B)Avoid slippage C)Avoid cutting D)None of these Example of semi liquid lubricant is A)Grease B)Lord oil	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मीस्टेट किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1 इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है? A) एल्यूमीनियम B) लीड C) कॉपर D) गोल्ड वी बेल्ट ड्राइव का उपयोग करने का प्रमुख लाभ: A) क्रिपलिंग B) फिसलन से बचाव C) कटान से बचाव D) इनमे से कोई नहीं सेमी तरल स्नेहक का उदाहरण है: A) ग्रीस B) लॉर्ड ऑइल C) वनस्पति तेल D) उपरोक्त में से कोई नहीं आईसी इंजन में कैम का उपयोग परिवर्तित करने के लिए		
18 19 20 21	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat  Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1  Which of these is heaviest material among these four? A)Aluminium B)Lead C)Copper D)Gold  Major advantage of using V belt drive A)Crippling B)Avoid slippage C)Avoid cutting D)None of these  Example of semi liquid lubricant is A)Grease B)Lord oil C)Vegetable oil D)None of the above  Cam in IC Engine is used for converting	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मीस्टेट  किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1  इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है? A) एल्यूमीनियम B) लीड C) कॉपर D) गोल्ड वी बेल्ट ड्राइव का उपयोग करने का प्रमुख लाभ: A) क्रिपलिंग B) फिसलन से बचाव C) कटान से बचाव D) इनमे से कोई नहीं सेमी तरल स्नेहक का उदाहरण है: A) ग्रीस B) लॉर्ड ऑइल C) वनस्पति तेल D) उपरोक्त में से कोई नहीं आईसी इंजन में कैम का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है:		
18 19 20 21	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1 Which of these is heaviest material among these four? A)Aluminium B)Lead C)Copper D)Gold Major advantage of using V belt drive A)Crippling B)Avoid slippage C)Avoid cutting D)None of these Example of semi liquid lubricant is A)Grease B)Lord oil C)Vegetable oil D)None of the above	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मीस्टेट किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1 इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है? A) एल्यूमीनियम B) लीड C) कॉपर D) गोल्ड वी बेल्ट ड्राइव का उपयोग करने का प्रमुख लाभ: A) क्रिपलिंग B) फिसलन से बचाव C) कटान से बचाव D) इनमे से कोई नहीं सेमी तरल स्नेहक का उदाहरण है: A) ग्रीस B) लॉर्ड ऑइल C) वनस्पति तेल D) उपरोक्त में से कोई नहीं आईसी इंजन में कैम का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है: A) रोटरी मोशन को रेसीप्रोकेटिंग मोशन मे परिवर्तित करने		
18 19 20 21	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat  Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1  Which of these is heaviest material among these four? A)Aluminium B)Lead C)Copper D)Gold  Major advantage of using V belt drive A)Crippling B)Avoid slippage C)Avoid cutting D)None of these  Example of semi liquid lubricant is A)Grease B)Lord oil C)Vegetable oil D)None of the above  Cam in IC Engine is used for converting  A)Rotary motion to reciprocating motion	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मोस्टेट  किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1 इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है? A) एल्यूमीनियम B) लीड C) कॉपर D) गोल्ड वी बेल्ट ड्राइव का उपयोग करने का प्रमुख लाभ: A) क्रिपलिंग B) फिसलन से बचाव C) कटान से बचाव D) इनमे से कोई नहीं सेमी तरल स्नेहक का उदाहरण है: A) ग्रीस B) लॉर्ड ऑइल C) वनस्पति तेल D) उपरोक्त में से कोई नहीं आईसी इंजन में कैम का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है: A) रोटरी मोशन को रेसीप्रोकेटिंग मोशन मे परिवर्तित करने मे		
18 19 20 21	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat  Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1  Which of these is heaviest material among these four? A)Aluminium B)Lead C)Copper D)Gold  Major advantage of using V belt drive A)Crippling B)Avoid slippage C)Avoid cutting D)None of these  Example of semi liquid lubricant is A)Grease B)Lord oil C)Vegetable oil D)None of the above  Cam in IC Engine is used for converting	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मीस्टेट किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1 इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है? A) एल्यूमीनियम B) लीड C) कॉपर D) गोल्ड वी बेल्ट ड्राइव का उपयोग करने का प्रमुख लाभ: A) क्रिपलिंग B) फिसलन से बचाव C) कटान से बचाव D) इनमे से कोई नहीं सेमी तरल स्नेहक का उदाहरण है: A) ग्रीस B) लॉर्ड ऑइल C) वनस्पति तेल D) उपरोक्त में से कोई नहीं आईसी इंजन में कैम का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है: A) रोटरी मोशन को रेसीप्रोकेटिंग मोशन मे परिवर्तित करने		
18 19 20 21	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat  Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1  Which of these is heaviest material among these four? A)Aluminium B)Lead C)Copper D)Gold  Major advantage of using V belt drive A)Crippling B)Avoid slippage C)Avoid cutting D)None of these  Example of semi liquid lubricant is A)Grease B)Lord oil C)Vegetable oil D)None of the above  Cam in IC Engine is used for converting  A)Rotary motion to reciprocating motion	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मीस्टेट किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1  इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है? A) एल्यूमीनियम B) लीड C) कॉपर D) गोल्ड वी बेल्ट ड्राइव का उपयोग करने का प्रमुख लाभ: A) क्रिपलिंग B) फिसलन से बचाव C) कटान से बचाव D) इनमे से कोई नहीं सेमी तरल स्नेहक का उदाहरण है: A) ग्रीस B) लॉर्ड ऑइल C) वनस्पति तेल D) उपरोक्त में से कोई नहीं आईसी इंजन में कैम का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है: A) रोटरी मोशन को रेसीप्रोकेटिंग मोशन मे परिवर्तित करने मे B) रेसीप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन मे परिवर्तित करने		
18 19 20 21	water in the engine, known as A)Water pump B)Radiator C)Water Jacket D)Thermostat  Which air fuel ratio is considered as rich mixture A)12:1 B)17:1 C)15:1 D)16:1  Which of these is heaviest material among these four? A)Aluminium B)Lead C)Copper D)Gold  Major advantage of using V belt drive A)Crippling B)Avoid slippage C)Avoid cutting D)None of these  Example of semi liquid lubricant is A)Grease B)Lord oil C)Vegetable oil D)None of the above  Cam in IC Engine is used for converting  A)Rotary motion to reciprocating motion  B)Reciprocating motion to rotary motion	किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं:  A) वॉटर पंप B) रेडिएटर C) वॉटर जैकेट D) थर्मीस्टेट किस वायु ईंधन अनुपात को समृद्ध मिश्रण माना जाता है A) 12: 1 B) 17: 1 C) 15: 1 D) 16: 1 इन चार में से कौन सी सबसे भारी तत्व है? A) एल्यूमीनियम B) लीड C) कॉपर D) गोल्ड वी बेल्ट ड्राइव का उपयोग करने का प्रमुख लाभ: A) क्रिपलिंग B) फिसलन से बचाव C) कटान से बचाव D) इनमे से कोई नहीं सेमी तरल स्नेहक का उदाहरण है: A) ग्रीस B) लॉर्ड ऑइल C) वनस्पति तेल D) उपरोक्त में से कोई नहीं आईसी इंजन में कैम का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है: A) रोटरी मोशन को रेसीप्रोकेटिंग मोशन मे परिवर्तित करने मे B) रेसीप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन मे परिवर्तित करने मे		

23	Electroplating on metal surface is what type of	धातु की सतह पर ईलेक्ट्रोप्लेटिंग किस प्रकार की प्रक्रिया		
	process?	है?		
	A)Temporary B)Permanent C)Semi-permanent D)All of the above	A) अस्थायी B) स्थायी C) अर्ध-स्थायी D) उपरोक्त सभी		
24		C) अर्ध-स्थायी D) उपरोक्त सभी		
24	Which of these is not a sunk key A) Gib head key B) Woodruff key	इनमें से कौन सी संक कुंजी नहीं है		
		A) गिब हैड कुंजी B) वुड्रुफ कुंजी C) फेदर कुंजी D) सैडल कुंजी		
25	C) Feather key D) Saddle key	्ट) फदर कुजा <u> </u>		
23	What is the meaning of CVT in cars			
	A)Cars variety transmission	A) कार्स वराइटी ट्रान्सिमशन		
	B)Continuously variety traction	B) कान्टिनिऔसली वराइटी ट्रेक्शन		
	C)Continuously variable Transmission D)All of the above	C) कान्टिनिऔसली परिवर्तनशील ट्रान्सिमशन D) उपरोक्त सभी		
26	Which of these maintenance is recommended for	मशीन के बेहतर प्रदर्शन के लिए इनमें से किस रखरखाव		
26		की सिफारिश की जाती है?		
	better performance of machine?			
	<ul><li>A) Preventive maintenance</li><li>B) Breakdown maintenance</li></ul>	A) निवारक रखरखाव		
	C) Failure maintenance	B) ब्रेकडाउन रखरखाव C) विफलता रखरखाव		
	D) All are correct	_		
27	·	D) सभी सही हैं		
27	Commonly used piston rings are	आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले पिस्टन रिंग्स :		
	A) Compression rings	A) संपीड़न रिंग		
	B) Oil rings C) Compression rings and oil rings	B) ऑइल रिंग		
	C) Compression rings and oil rings	C) संपीड़न रिंग और ऑइल रिंग		
28	D) Lubricating rings	D) स्नेहन रिंग दिशा बदलने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया		
20	Which of these is used for change of direction	दिशा बदरान के लिए इनमें से किसकी उपयोग किया   जाता है?		
	A) Adapter B) Elbow C) Nipple D) Reducer			
	C) Nipple D) Reducei	A) एडाप्टर B) एल्बी C) निप्पल D) रिड्यूसर		
29	Measurement by dynamometer is displayed in	डायनेमोमीटर द्वारा मापन किस इकाई में प्रदर्शित होता है		
29	which unit	A) किलो वाट B) के.जी.		
	A) KW B) Kg	C) न्यूटन-मीटर D) आरपीएम		
	C) Newton-meter D) RPM	) जास्यादम		
30	Which of these is used when large quantity is to be	जब बड़ी मात्रा का निरीक्षण किया जाना है  तो दनमें मे		
	inspected?	किसका उपयोग किया जाता है?		
	A) Pin gauge B) Snap gauge	A) पिन गेज B) स्नैप गेज		
	C) Plug gauge D) Vernier	C) प्लग गेज D) वर्नियर		
31	The ratio of ultimate stress to working stress is	अल्टिमेट स्ट्रैस एवं वर्किंग स्ट्रैस का अनुपात है:		
	A) Modulus of elasticity B) Elongation	A) लोच का मापांक B) बढाव		
	C) Factor of stress D) Factor of safety	C) तनाव का कारक D) सुरक्षा का कारक		
32	A hole, which is not made through full depth of	एक छिद्र , जिसे घटक की पूरी गहराई से नहीं बनाया		
	the component is known as	जाता है, के रूप में जाना जाता है		
	A) Core hole B) Pin hole	A) कोर होल B) पिन होल		
	C) Blind hole D) Bore hole	C) ब्लाइंड होल D) बोर होल		
	D) Dote note	्राच्या हुए सार्च होता है। जार ह		
33	The distance a drill advance into the job in one	किसी जॉब मे एक घूर्णन में कोई ड़िल जितनी दूरी तय		
	revolution is known as:	करती है वो कहलता है:		
	A)RPM B)Cutting speed	A) आरपीएम B) काटने की गति		
	C)Machine speed D)Feed	C) मशीन की गति D) फ़ीड		
	, <u> </u>	-/ ····		

34	Which of these is limit gauge:	इनमें से कौन लिमिट) गेज है:	
	A) Slip gauge	A) स्लिप गेज	
	B) GO and NOGO gauge	B) जीओ और एनओजीओ गेज	
	C) Ring gauge	C) रिंग गेज	
	D) Plug gauge	D) प्लग गेज	
35	In Electroplating to resist work from corrosion,	इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम को जंग से बचाने के लिए, काम	
	work will be connected to which pole of DC	को डीसी पावर स्रोत के किस पोल से जोड़ना होगा?	
	power source?	A) धनात्मक ध्रुव	
	A)Positive pole	B) ऋणात्मक ध्रुव	
	B)Negative pole	b) ऋगात्मय ध्रुप C) ध्रुव कोई मायने नहीं रखता, किसी भी ध्रुव से जोड़ा जा	
	C)Pole does not matter, can be connected to	्ट) द्रुप काई मापन नहां रखता, किसी मा द्रुप से जाड़ा जा सकता है	
	anyone of pole	D) उपरोक्त में से कोई नहीं	
	D)None of the above	0) उपरापत में से पगई गेहा	
36	Which of these is not correct	इनमें से कौन सा सही नहीं है	
	which of these is not correct	इनम स ब्यान सा सहा नहां ह	
	A) Steering shaft is made from drop forged steel	A) स्टीयरिंग शाफ्ट ड्रॉप फ़्रोज्ड स्टील से बना है।	
	B) Drop arm is also called as pitmen arm	B) ड्रॉप आर्म को पिटमैन आर्म भी कहा जाता है।	
	C) Out of Davis and Akerman steering mechanism	C) डेविस और अकरमैन स्टीयरिंग तंत्र में से डेविस	
	Davis is more popular	अधिक लोकप्रिय है।	
	Davis is more popular	अधिक साकाप्रय है।	
	D) For perfect steering, it must always have an	D) सही स्टीयरिंग के लिए, इसमें हमेशा एक तात्कालिक	
	instantaneous centre about which wheels must	केंद्र होना चाहिए जिसके चारो तरफ इसको घूमना	
	rotate	चाहिए।	
	Totale	पाहिए।	
37	Which option is not correct for safety practice	सुरक्षा अभ्यास बिंदु के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है	
	point of view	A) सुरक्षात्मक कपड़े पहनें	
	•	B) उपयोग किए गए तेल को गर्म क्षेत्र के पास रखा जा	
	A) Wear protective clothing	· · · _	
	B) used oil can be kept near the hot area	सकता है	
	<ul><li>B) used oil can be kept near the hot area</li><li>C) Do not spill any oil or grease on the ground</li></ul>	C) जमीन पर कोई तेल या तेल न छिड़कें	
	· •	· .	
	C) Do not spill any oil or grease on the ground	C) जमीन पर कोई तेल या तेल न छिड़कें	
38	<ul><li>C) Do not spill any oil or grease on the ground</li><li>D) Give correct information of your job to supervisor</li></ul>	C) जमीन पर कोई तेल या तेल न छिड़कें D) पर्यवेक्षकों को अपने काम की सही जानकारी दें	
38	C) Do not spill any oil or grease on the ground     D) Give correct information of your job to supervisor  Which is correct option for propeller shaft of	<ul> <li>C) जमीन पर कोई तेल या तेल न छिड़कें</li> <li>D) पर्यविक्षकों को अपने काम की सही जानकारी दें</li> <li>जो वाहन के प्रोपेलर शाफ्ट के लिए सही विकल्प है</li> </ul>	
38	C) Do not spill any oil or grease on the ground     D) Give correct information of your job to supervisor  Which is correct option for propeller shaft of vehicle	C) जमीन पर कोई तेल या तेल न छिड़कें  D) पर्यवेक्षकों को अपने काम की सही जानकारी दें  जो वाहन के प्रोपेलर शाफ्ट के लिए सही विकल्प है  A) यह इंजन से पहियों तक शक्ति को संचारित करता है	
38	<ul> <li>C) Do not spill any oil or grease on the ground</li> <li>D) Give correct information of your job to supervisor</li> <li>Which is correct option for propeller shaft of vehicle</li> <li>A) It transmits power from engine to wheels</li> </ul>	C) जमीन पर कोई तेल या तेल न छिड़कें  D) पर्यवेक्षकों को अपने काम की सही जानकारी दें  जो वाहन के प्रोपेलर शाफ्ट के लिए सही विकल्प है  A) यह इंजन से पहियों तक शक्ति को संचारित करता है  B) यह एक ठोस शैफ्ट है	
38	<ul> <li>C) Do not spill any oil or grease on the ground</li> <li>D) Give correct information of your job to supervisor</li> <li>Which is correct option for propeller shaft of vehicle</li> <li>A) It transmits power from engine to wheels</li> <li>B) It is a solid shaft</li> </ul>	C) जमीन पर कोई तेल या तेल न छिड़कें  D) पर्यवेक्षकों को अपने काम की सही जानकारी दें  जो वाहन के प्रोपेलर शाफ्ट के लिए सही विकल्प है  A) यह इंजन से पहियों तक शक्ति को संचारित करता है  B) यह एक ठोस शैफ्ट है  C) A और B दोनों	
38	<ul> <li>C) Do not spill any oil or grease on the ground</li> <li>D) Give correct information of your job to supervisor</li> <li>Which is correct option for propeller shaft of vehicle</li> <li>A) It transmits power from engine to wheels</li> </ul>	C) जमीन पर कोई तेल या तेल न छिड़कें  D) पर्यवेक्षकों को अपने काम की सही जानकारी दें  जो वाहन के प्रोपेलर शाफ्ट के लिए सही विकल्प है  A) यह इंजन से पहियों तक शक्ति को संचारित करता है  B) यह एक ठोस शैफ्ट है	
38	<ul> <li>C) Do not spill any oil or grease on the ground</li> <li>D) Give correct information of your job to supervisor</li> <li>Which is correct option for propeller shaft of vehicle</li> <li>A) It transmits power from engine to wheels</li> <li>B) It is a solid shaft</li> </ul>	C) जमीन पर कोई तेल या तेल न छिड़कें  D) पर्यवेक्षकों को अपने काम की सही जानकारी दें  जो वाहन के प्रोपेलर शाफ्ट के लिए सही विकल्प है  A) यह इंजन से पहियों तक शक्ति को संचारित करता है  B) यह एक ठोस शैफ्ट है  C) A और B दोनों	
38	<ul> <li>C) Do not spill any oil or grease on the ground</li> <li>D) Give correct information of your job to supervisor</li> <li>Which is correct option for propeller shaft of vehicle</li> <li>A) It transmits power from engine to wheels</li> <li>B) It is a solid shaft</li> <li>C) Both A &amp; B</li> </ul>	C) जमीन पर कोई तेल या तेल न छिड़कें D) पर्यवेक्षकों को अपने काम की सही जानकारी दें जो वाहन के प्रोपेलर शाफ्ट के लिए सही विकल्प है A) यह इंजन से पहियों तक शक्ति को संचारित करता है B) यह एक ठोस शैफ्ट है C) A और B दोनों	
	<ul> <li>C) Do not spill any oil or grease on the ground</li> <li>D) Give correct information of your job to supervisor</li> <li>Which is correct option for propeller shaft of vehicle</li> <li>A) It transmits power from engine to wheels</li> <li>B) It is a solid shaft</li> <li>C) Both A &amp; B</li> <li>D) None of the above</li> <li>What is wheel track ?</li> </ul>	C) जमीन पर कोई तेल या तेल न छिड़कें D) पर्यवेक्षकों को अपने काम की सही जानकारी दें जो वाहन के प्रोपेलर शाफ्ट के लिए सही विकल्प है A) यह इंजन से पहियों तक शक्ति को संचारित करता है B) यह एक ठोस शैफ्ट है C) A और B दोनों D) उपरोक्त में से कोई नहीं	
	<ul> <li>C) Do not spill any oil or grease on the ground</li> <li>D) Give correct information of your job to supervisor</li> <li>Which is correct option for propeller shaft of vehicle</li> <li>A) It transmits power from engine to wheels</li> <li>B) It is a solid shaft</li> <li>C) Both A &amp; B</li> <li>D) None of the above</li> <li>What is wheel track?</li> <li>A) Distance between front tyre to back tyre</li> </ul>	C) जमीन पर कोई तेल या तेल न छिड़कें D) पर्यवेक्षकों को अपने काम की सही जानकारी दें जो वाहन के प्रोपेलर शाफ्ट के लिए सही विकल्प है A) यह इंजन से पहियों तक शक्ति को संचारित करता है B) यह एक ठोस शैफ्ट है C) A और B दोनों D) उपरोक्त में से कोई नहीं व्हील ट्रैक क्या है? A) फ्रंट टायर से बैक टायर के बीच की दूरी	
	<ul> <li>C) Do not spill any oil or grease on the ground</li> <li>D) Give correct information of your job to supervisor</li> <li>Which is correct option for propeller shaft of vehicle</li> <li>A) It transmits power from engine to wheels</li> <li>B) It is a solid shaft</li> <li>C) Both A &amp; B</li> <li>D) None of the above</li> <li>What is wheel track?</li> <li>A) Distance between front tyre to back tyre</li> <li>B) Distance between centre of LH tyre to Centre</li> </ul>	C) जमीन पर कोई तेल या तेल न छिड़कें D) पर्यवेक्षकों को अपने काम की सही जानकारी दें जो वाहन के प्रोपेलर शाफ्ट के लिए सही विकल्प है A) यह इंजन से पहियों तक शक्ति को संचारित करता है B) यह एक ठोस शैफ्ट है C) A और B दोनों D) उपरोक्त में से कोई नहीं व्हील ट्रैक क्या है? A) फ्रंट टायर से बैक टायर के बीच की दूरी B) आरएच टायर के केंद्र से एलएच टायर के केंद्र के	
	<ul> <li>C) Do not spill any oil or grease on the ground</li> <li>D) Give correct information of your job to supervisor</li> <li>Which is correct option for propeller shaft of vehicle</li> <li>A) It transmits power from engine to wheels</li> <li>B) It is a solid shaft</li> <li>C) Both A &amp; B</li> <li>D) None of the above</li> <li>What is wheel track?</li> <li>A) Distance between front tyre to back tyre</li> <li>B) Distance between centre of LH tyre to Centre of RH tyre</li> </ul>	C) जमीन पर कोई तेल या तेल न छिड़कें D) पर्यवेक्षकों को अपने काम की सही जानकारी दें जो वाहन के प्रोपेलर शाफ्ट के लिए सही विकल्प है A) यह इंजन से पहियों तक शक्ति को संचारित करता है B) यह एक ठोस शैफ्ट है C) A और B दोनों D) उपरोक्त में से कोई नहीं व्हील ट्रैक क्या है? A) फ्रंट टायर से बैक टायर के बीच की दूरी B) आरएच टायर के केंद्र से एलएच टायर के केंद्र के बीच की दूरी	
	<ul> <li>C) Do not spill any oil or grease on the ground</li> <li>D) Give correct information of your job to supervisor</li> <li>Which is correct option for propeller shaft of vehicle</li> <li>A) It transmits power from engine to wheels</li> <li>B) It is a solid shaft</li> <li>C) Both A &amp; B</li> <li>D) None of the above</li> <li>What is wheel track?</li> <li>A) Distance between front tyre to back tyre</li> <li>B) Distance between centre of LH tyre to Centre</li> </ul>	C) जमीन पर कोई तेल या तेल न छिड़कें D) पर्यवेक्षकों को अपने काम की सही जानकारी दें जो वाहन के प्रोपेलर शाफ्ट के लिए सही विकल्प है A) यह इंजन से पहियों तक शक्ति को संचारित करता है B) यह एक ठोस शैफ्ट है C) A और B दोनों D) उपरोक्त में से कोई नहीं व्हील ट्रैक क्या है? A) फ्रंट टायर से बैक टायर के बीच की दूरी B) आरएच टायर के केंद्र से एलएच टायर के केंद्र के	

40	Which of the following is not correct for Aluminium?	निम्न मे से जो एल्यूमिनियम के लिए सही नहीं है : A) उच्च विद्युत चालकता		
		B) कम तापीय चालकता		
	A) High electrical conductivity	C) वजन में हल्की		
	B) Low thermal conductivity	D) उच्च लचीलापन		
	C) Light in weight			
	D) D) high ductility			
41	A circular piece of paper of radius 30 cm is	कागज का एक गोलाकार टुकड़ा जिसकी त्रिज्या 30		
	trimmed into the shape of biggest possible square.	सेमी है को संभव बड़े वर्ग के आकार में छांटा जाता है।		
	What is the perimeter of square? A) 900 B) 150	तो वर्ग की परिधि क्या है?		
	C) 168 D) 120	A) 900 B) 150		
	2,120	C) 168 D) 120		
42	Chose the correct option	सही विकल्प चुनो:		
	i) If the diagonals of a quadrilateral are equal	i) यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, तो यह		
	then it is not necessarily a rectangle	आवश्यक नहीं की यह एक आयत है।		
	ii) Diagonals of a square are equal but not	ii) एक वर्ग के विकर्ण बराबर हैं लेकिन जरूरी नहीं कि		
	necessarily bisect at right angle	यह एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करे ।		
	iii) Diagonals of rhombus intersect at right angle	iii) समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर		
	iv) If the diagonals of a quadrilateral bisect at	काटते है		
	right angle it is necessarily a square	iv) यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर एक दूसरे		
		को काटते है तो यह आवश्यक रूप से एक वर्ग है		
	A) iii) B) ii)	A) iii) B) ii)		
	C) iv) D) i) ii) iii) iv)	C) iv) D) i) ii) iii) iv)		
43	Which of the following is correct about soldering	निम्नलिखित में से जो टांका लगाने की प्रक्रिया के बारे में		
	process:	सही है :		
	i) Solder is an allow of some and tin	i) सोल्डर तांबा और टिन का एक मिश्र धातु है		
	i) Solder is an alloy of copper and tin	ii) सोल्डर सीसा और टिन का मिश्र धातु है		
	ii) Solder is and alloy of lead and tin	iii) सोल्डर का गलनांक कम होता है		
	iii) Solder has low melting point	iv) बिजली के तारों को एक साथ वेल्डिंग करने के लिए		
	iv) Soldering is used for welding electric wires	सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है		
	together	A) i) iii) और iv) B) ii) iii) और iv)		
	A) i) iii) and iv) B) ii) iii) and iv) C) ii) iii) iii)	C) i) ii) iii) iv) D) ii) और iv)		
4.4	C) i) ii) iii) iv) D) ii) and iv)	किय गामान पर मेलियाम और एस्ट्रो स्वास्त्र गामान		
44	At what temperature Celsius and Fahrenheit	किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान समान हैं		
	temperature are same			
	A) 0 degree B) -10 degree	A) 0 डिग्री C) -40 डिग्री D) उपरोक्त सभी		
	C) - 40 degree D) All of above	(८) -40 १५आ १) उपराक्त समा		
45	How many feet/ minute in 20 mile/ hours?	20 मील / घंटे कितने फीट / मिनट होगा?		
	A) 600 feet/ minute	A) 600 फੀਟ / ਸਿ਼ਜਟ		
	B) 1760 feet/ minute	B) 1760 फीट / मिनट		
	C) 3600 feet/ minute	C) 3600 फीट / मिनट		
	D) 700 feet/ minute	D) 700 फीट / मिनट		

46	Which is not correct about anodising process?	एनोडाइजिंग प्रक्रिया के बारे में निम्न मे से क्या सही नहीं		
	<ul> <li>i) Process of forming thin layer of oxide of aluminium</li> <li>ii) oxygen gas evolved at anode reacts with aluminium to form thicker protective oxide layer</li> <li>iii) Resistance can be improved by increasing thickness of layer</li> <li>iv) Resistance is not related to thickness of layer</li> </ul>	है? i) एल्यूमीनियम की ऑक्साइड की पतली परत बनाने की प्रक्रिया ii) एनोड पर विकसित ऑक्सीजन गैस एल्यूमीनियम के साथ घने सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत का निर्माण करती है iii) परत की मोटाई बढ़ाकर प्रतिरोध में सुधार किया जा सकता है iv) प्रतिरोध परत की मोटाई से संबंधित नहीं है		
	A) Only iii) B) i) ii) and iv) C) ii) and iv) D) Only iv)	A) केवल iii) B) i) ,ii) और iv) C) ii) और iv) D) केवल iv)		
47	<ul> <li>Which option is correct for function of tyre</li> <li>i) The tyre should create minimum noise</li> <li>ii) Tubeless tyres are better for balancing of wheels</li> <li>iii) Slow leakage of air during puncture in tube less tyres</li> <li>iv) Tyres does reduce vibration to some extent</li> <li>A) i) &amp; iii)</li> <li>B) ii) ,iii) &amp; iv)</li> </ul>	टायर के कार्य के लिए कौन सा विकल्प सही है i) टायर को न्यूनतम शोर पैदा करना चाहिए ii) पहियों के संतुलन के लिए ट्यूबलेस टायर बेहतर हैं iii) ट्यूबलेस टायरों में पंचर के दौरान हवा का धीमा रिसाव iv) टायर कंपन को कुछ हद तक कम करता है A) i) और iii)		
	C) iii) & iv) D) i) ,ii) iii) & iv)	C) iii) और iv) D) i) ,ii), iii) एवं iv)		
48	What is the function of jib crane?  A) It remains fixed and transports object from one place to other  B) It moves and transport object from one place to other  C) It is the same as EOT Crane  D) None of the above	वस्तु को स्थानांतरित करता है		
49	Feature of Anti lock braking system is  A) It prevents the wheel from skidding  B) It does not prevent wheels from locking  C) Both A & B  D) None of the above	एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की विशेषता है  A) यह पहिया को फिसलने से रोकता है  B) यह पहियों को लॉक होने से नहीं रोकता है  C) A और B दोनों  D) उपरोक्त में से कोई नहीं		
50	If the ratio of area to perimeter of regular hexagon is 1.732, what is the perimeter of this hexagon A) 40 B) 4 C) 24 D) 12	यदि नियमित षट्भुज की क्षेत्रफल का परिधि से अनुपात 1.732 है, तो इस षट्भुज की परिधि क्या है A) 40 B) 4 C) 24 D) 12		

## ATT only for Dragline Operator (Trainee)

(Exam Held on 29/11/2020, in ref to E.N. 187)

Ques.	Correct	Ques.		Ques.	
	Answer		Answer	No.	
1		21		41	
2		22		42	
	D	23		43	
4	Α	24	D	44	С
5	D	25	С	45	В
6	С	26	Α	46	D
7	D	27	С	47	D
8	D	28	В	48	В
9	С	29	Α	49	Α
10	D	30	В	50	С
11	В	31	D		
12	В	32	С		
13	D	33	D		
14	С	34	В		
15	В	35	В		
16	D	36	С		
17	В	37	В		
18	A	38	Α		
19	D	39	В		
20	В	40	В		